

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक-2875 /FP/UK/ROAD/16265/2015 देहरादून: दिनांक: 17 फरवरी, 2018.

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,  
रानीखेत।

विषय:-जनपद-अल्मोड़ा में देघाट-तल्ली नारायण मन्दिर-मालभीड़ा-सेरामुनानी-मालीखेत-  
नागचूलाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.2731 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु  
लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:-भारत सरकार की पत्र संख्या FP/UK/16265/215 दिनांक 30-08-2017.

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार के EDS दिनांक 30.08.2017 के द्वारा 05 बिन्दुओं की सूचना चाही गयी थी। उक्त के क्रम में आपके द्वारा भारत सरकार द्वारा वांछित सूचना के अनुरूप अपना उत्तर प्रेषित नहीं किया गया है।

अतः भारत सरकार के EDS दिनांक 30.08.2017 द्वारा चाही गयी 05 बिन्दुओं की सूचना संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि उक्त सूचना भारत सरकार के अनुरूप आपके किस पार्ट के किस कालम के किस संख्या में अपलोड की गयी है। उक्त वांछित सूचना ऑनलाईन/ऑफलाईन हार्ड प्रति में भी प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रश्नगत प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:-यथोपरि।

भवदीय,

(अनूप मलिक)

अपर वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या /FP/UK/ROAD/16265/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

(अनूप मलिक)

अपर वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

ESS-Dt- 30-8-17

**FP/UK/ROAD/16265/2015**

Following shortcomings may be attended by State Government:

1. The data provided in the column of employment details at para E (iii) online Part I appear to be incorrect especially the data provided for permanent/regular employment. The State Govt may review the same and provide correct data in online part I.
2. In the Cost Benefit (C/B) analysis uploaded in para G online Part I, columns are not quantified of both Performa VI b and VI C needs to be quantified in monetary terms. The revised C/B analysis after necessary correction may upload in para G online Part I.
3. In the village level committee (VLC) proceedings attached with the FRA certificate at para K, online Part I the State Govt may review the name of villages/Panchayats given in the proceedings and rectify the information. In annexures with the FRA certificate various corrections are made which need to be authenticated by the issuing authority. The correct copy of FRA certificate with all annexures may upload at para K, online Part I and also provide original hard copy to this office.
4. All the documents available in the hard copy of the proposal are photocopies except geo-referenced map for area proposed for diversion and not the original documents. State Govt. may provide hard copy of the proposal folder containing all original or attested copies of the documents. However, the FRA certificate and the geo-referenced digital maps of area proposed for CA should be in original.
5. In the DSS analysis the area proposed for CA calculated as 14.0 ha while the proposed area for CA in this proposal is 10.5462 ha. The State Govt may upload revised KML for area 10.5462 ha at Para L, online Part I and para 13, online Part II.